

Notesheet file
E-1402847

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इण्डिया की एक सहायक कंपनी)

अधिकारी स्थापना विभाग

दरभंगा हाउस, रांची 834029 -

दूरभाष संख्या: 0651-2360695/Extn-5144


CIN: U10200JH1956GOI000581

ई-मेल: gmee.ccl@coalindia.in

वेब साइट: http://centralcoalfields.in



एक महारत्न कंपनी
A Maharatna Company



Central Coalfields Limited

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Executive Establishment Department

Darbhanga House, Ranchi-834029

Phone No. 0651-2360695/Extn-5144

CIN: U10200JH1956GOI000581

E-mail Id: gmee.ccl@coalindia.in

Website: http://centralcoalfields.in

सं. सीसीएल/मप्र(का-अधि. स्था.)/असैनिक/विरमित/2023/E-1359261/ 1069-90
दिनांक : 30/01/2024

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

सीआईएल के कार्यालय आदेश सं. CIL/C-5A(ii)/52036/B-95 dated 17.01.2024 के तहत श्री Dilip Lal (95000288), अधिकारी (सर्वे)/ E-1 ग्रेड, अरगडा क्षेत्र को अपनी मौजूदा क्षमता/ ग्रेड में एनसीएल स्थानांतरित किया गया है, उनको दिनांक 15/02/2024 को सीसीएल से विरमित किया जाता है।

Pursuant to CIL's Office Order no. CIL/C-5A(ii)/52036/B-95 dated 17.01.2024, vide which Sri Dilip Lal (95000288), Officer (Survey)/ E1 Grade, Arghada Area who has been transferred to NCL in his existing capacity/ grade, is hereby released from CCL w.e.f 15/02/2024.

विरमित होने पर, श्री Dilip Lal आगे के कार्यभार के लिए एनसीएल के सीएमडी को रिपोर्ट करेंगे।

On being released, Sri Dilip Lal will report for duty to the CMD, NCL for further assignment.

स्थानांतरण को "अनुरोध स्थानांतरण" के रूप में माना जाएगा और इसे तदनुसार विनियमित किया जाएगा।

The transfer will be treated as "Request Transfer" and the same shall be regulated accordingly.

नया कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिनों के भीतर प्राइड भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

It will be the personal responsibility of the executive concerned to fill up the PRIDE within 15 days of taking up new assignment.

यह सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issues with the approval of Competent Authority.



(विल्फ्रेड माणिक लकड़ा)

उप. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था.)



वितरण ई ऑफिस द्वारा :

1. सीएमडी, एनसीएल।
2. निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (वित्त)/ निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना), सीसीएल, रांची।
3. सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
4. महाप्रबंधक/ विभागाध्यक्ष (अधि. स्था.), एनसीएल - संबंधित अधिकारी का जॉइनिंग रिपोर्ट भेजने की कृपा करें।
5. महाप्रबंधक (संचालन)/ सतर्कता /अधि. स्था./ पी एंड आईआर/ प्रशासन/ सामाजिक सुरक्षा/ एचआरडी/ प्रणाली/ एनआईएमसी, सीसीएल, रांची।
6. विभागाध्यक्ष (कार्मिक - अधि. स्था.), सीआईएल, कोलकाता।
7. महाप्रबंधक, अरगडा क्षेत्र।
8. स्टाफ अधिकारी (कार्मिक एवं प्रशासन), अरगडा क्षेत्र - क्षेत्र एवं ईकाई का विरमित आदेश भेजने की कृपा करें।
9. क्षेत्रीय वित्त प्रबन्धक, अरगडा क्षेत्र - LPC कि कॉपी इस विभाग को भी भेजने की कृपा करें।
10. मुख्य प्रबंधक/ व.प्र/ उ.प्र (वित्त - ईपीआर)/ (स्था.), सीसीएल, रांची - पदस्थापना स्थल से विरमित होने के पश्चात, सर्विस शीट की आवश्यक पन्नो कि कॉपी रखकर, सर्विस शीट दूसरे सबसिडियरी भेजने की कृपा करें।
11. वरीय प्रबंधक (कार्मिक), सीएमडी सचिवालय, सीसीएल, रांची।
12. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./डीसी), सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
13. उप. प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
14. नोडल अधिकारी (PRIDE), अरगडा क्षेत्र - PRIDE के निर्माण हेतु।
15. सहायक. प्रबंधक (कार्मिक - अधि. स्था./सीआर), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16. संबंधित अधिकारी।
17. व्यक्तिगत फ़ाइल।